

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21122023-250808  
SG-DL-E-21122023-250808असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                          |                         |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| सं. 374] | दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 21, 2023/अग्राहायण 30, 1945 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 346 |
| No. 374] | DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 2023/AGRAHAYANA 30, 1945   | [N. C. T. D. No. 346    |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIवित्त (व्यय-I) विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2023

सं. 16/2023-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03 (17)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/1069.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस सरकार, की अधिसूचना संख्या 17/2017 राज्य कर (दर), जिसे सं.फा.03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में,

i. खंड (i) में, शब्दों “ऑम्निबस या कोई अन्य मोटर वाहन” के स्थान पर, शब्दों और प्रतीकों” या ऑम्निबस को छोड़कर कोई अन्य मोटर वाहन; प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ii. खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(i) किसी ऑम्निबस द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं, सिवाय इसके कि जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऐसी सेवा की आपूर्ति करने वाला व्यक्ति एक कंपनी है।”;

iii. अधिसूचना के स्पष्टीकरण में, मद (ग) के बाद निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्,—

“(घ) “कंपनी” का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में इसे दिया गया है।”

2. यह अधिसूचना 20 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

**नोट :** मूल अधिसूचना को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में अधिसूचना संख्या 17/2017 राज्य कर (दर), जिसे सं.फा 03(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/375, दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV के तहत प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2021, राज्य कर (दर) जिसे सं.फा.03(160)/वित्त(राजस्व-I)/2021-22/डीएस-I/171, दिनांक 16 मार्च 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय-I)

## FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 21st December, 2023

#### No. 16/2023-State Tax (Rate)

**No. F. 03 (17)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/1069.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification, No. 17/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/375, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (i) in clause (i), for the words “omnibus or any other motor vehicle”, the words “or any other motor vehicle except omnibus” shall be substituted;
- (ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-  
“(ia) services by way of transportation of passengers by an omnibus except where the person supplying such service through electronic commerce operator is a company.”;
- (iii) in the Explanation, after item (c), the following item shall be inserted, namely, -  
“(d) “Company” has the same meaning as assigned to it in clause (20) of section 2 of the Companies Act, 2013(18 of 2013).”

2. This notification shall come into force with effect from the 20<sup>th</sup> day of October, 2023.

**Note :** The principal notification No.17/2017- State Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> day of June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/375, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 17/2021 –State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F.3 (160)/Fin(Exp-I)/2021-22/DS-I/171, dated the 16<sup>th</sup> March, 2022.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the

National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)